



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1135]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 2003/अग्रहायण 29, 1925

No. 1135]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 2003/AGRAHAYANA 29, 1925

लोक सभा सचिवालय

LOK SABHA SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

New Delhi, the 19th December, 2003

का.आ. 1447(अ)—राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा की निर्वाचित सदस्य श्रीमती वसुन्धरा राजे ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र 18 दिसम्बर, 2003 से स्वीकार कर लिया है।

S.O. 1447(E).—Shrimati Vasundhara Raje, an elected member of Lok Sabha from Jhalawar Parliamentary, Constituency of Rajasthan, has resigned her seat in Lok Sabha and her resignation has been accepted by the Speaker with effect from 18th December, 2003.

[सं. 21/3/2003/टी]

[No. 21/3/2003/T]

जी. सी. मलहोत्रा, महासचिव

G. C. MALHOTRA, Secy.- General